

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा

दिनांक 01.03.23

थाना डिडौली पुलिस द्वारा गैर प्रांतों से चोरी व पुराने ट्रैक्टरों के चैसिस न0/इन्जन न0 बदलकर आर्थिक लाभ पर बेचने वाले गिरोह के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, भिन्न भिन्न कंपनी के 12 ट्रैक्टर, 1036 मार्का प्लेट व इन्जन न0/चैसिस न0 को गोदने वाले अक्षर व अंक गोदने वाली डाई बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजय कुमार राणा के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा पुराने व चोरी हुये ट्रैक्टरों को दूसरे राज्यों से खरीद कर उनके चैसिस व इन्जन नम्बर बदलकर अच्छे मुनाफे पर बचने वाले गिरोह के दो अभियुक्त भिन्न भिन्न कंपनी के 12 ट्रैक्टर, डाई, मार्का प्लेट, नंबर प्लेट सहित गिरफ्तार किए गए ।

संक्षिप्त विवरण:- अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.03.2023 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम चौधरपुर स्थित आफताब की दुकान के पीछे खाली पड़े प्लेट से दो अभियुक्त 1. आफताब पुत्र नजाकत निवासी ग्राम चकपायंती उर्फ गोसपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा व 2. सद्दाम उर्फ प्रवेज पुत्र सद्दन निवासी ग्राम श्यौनाली थाना डिडौली जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया जिनके अन्य साथी मौके से फरार हो गए । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से गैर प्रांत से चोरी हुए भिन्न भिन्न कम्पनी के 12 ट्रैक्टर, चैसिस नम्बर व इन्जन नम्बर को गोदने में प्रयुक्त किये जाने वाली A से Z अंकित कुल 26 अंग्रेजी अक्षर डाई, अंक 0-8 कुल 09 डाई, स्वराज रंग लाल पंजाब ट्रैक्टर की 406 मार्का प्लेट, स्वराज हरी डीविजन की कुल 608 मार्का प्लेट , आईसर क्रीम कलर कुल 09 मार्का प्लेट, महेन्द्रा कम्पनी की कुल 07 मार्का प्लेट, सोनालिका कम्पनी की कुल 01 मार्का प्लेट , स्कोर्ट कम्पनी की कुल 03 मार्का प्लेट, टेफे कम्पनी की 01 मार्का प्लेट, इन्टरनेशनल 01 मार्का प्लेट, भिन्न भिन्न कम्पनी की गुदी हुयी कुल 06 नम्बर प्लेट व 500 पम्प प्लेट्स बरामद की । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना डिडौली पर सुसंगत धाराओं में

अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।



पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग फरार हुए अन्य साथियों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ लेने हेतु गैर प्रांतों से चोरी के ट्रैक्टरों की नम्बर प्लेट, चैसिस नम्बर, इन्जन नम्बर बदलकर उन्हे उंचे मॉडल का दर्शाकर अच्छे दामों पर चौधरपुर ट्रैक्टर बाजार में बेच दिया करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. आफताब पुत्र नजाकत निवासी ग्राम चकपायंती उर्फ गोसपुर थाना डिडौली जिला अमरोहा ।
2. सद्दाम उर्फ प्रवेज पुत्र सद्दन निवासी ग्राम श्यौनाली थाना डिडौली जिला अमरोहा।

बरामदगी:-

1. 12 ट्रैक्टर भिन्न भिन्न कम्पनी ।
2. चैसिस नम्बर व इन्जन नम्बर को गोदने में प्रयुक्त किये जाने वाली A से Z अंकित कुल 26 अंग्रेजी अक्षर डाई, अंक 0-8 कुल 09 डाई ।
3. स्वराज रंग लाल पंजाब ट्रैक्टर की 406 मार्का प्लेट ।
4. स्वराज हरी डीविजन की कुल 608 मार्का प्लेट ।

5. आईसर क्रीम कलर कुल 09 मार्का प्लेट।
6. महेन्द्रा कम्पनी की कुल 07 मार्का प्लेट।
7. सोनालिका कम्पनी की कुल 01 मार्का प्लेट ।
8. स्कोर्ट कम्पनी की कुल 03 मार्का प्लेट।
9. टेफे कम्पनी की 01 मार्का प्लेट।
10. इन्टरनेशनल 01 मार्का प्लेट।
11. भिन्न भिन्न कम्पनी की गुदी हुयी कुल 06 नम्बर प्लेट ।
12. 500 पम्प प्लेट्स।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आफताब:-

1. मु0अ0सं0 119/23 धारा 420/467/468/471/414/120बी भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सद्दाम:-

1. मु0अ0सं0 119/23 धारा 420/467/468/471/414/120बी IPC थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवेज कुमार चौहान थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
2. व0उ0नि0 संजय कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
3. उ0नि0 कपिल कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
4. का0 252 रोहित कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
5. का0 419 आकाश कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
6. का0 594 हंसराज थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
7. का0 515 दिनेश भाटी थाना डिडौली जनपद अमरोहा।